



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 27, बुधवार, शके 1941-सितम्बर 18, 2019
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941-September 18, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 4, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 8709:-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Losal has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Losal. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,

UjjwalRathore,

Joint Secretary to Government

कार्यालय नगर पालिका मण्डल-लोसल जिला - सीकर

प्रपत्र क

| वार्ड संख्या | नव गठित वार्डों के सीमाकन का विवरण |
|--------------|---|
| 1 | मुख्य बस स्टेण्ड पर स्थित चुंगी नाका नम्बर 04 से उत्तर की तरफ चलते हुये फकिरों के मकानातकब्रिस्तान शामिल कर धोद जाने वाले रास्ते के बांयी ओर के मकानात शामिल कर बासड़ा जाने वाली गेली मुड़कर पश्चिम में चलते हुए बाये हाथ के समस्त मकानात शामिल कर बासड़ा व उसकी ढाणियां शामिल करते हुये सीकर-डीडवाना रोड़ तक एवं वहाँ से पूर्व में सड़क-सड़क चलते हुये बांयी साइड के समस्त मकानात शामिल करते हुये चुंगी नाका नम्बर 04 तक का एरिया वार्ड संख्या 01 होगा। |
| 2 | सीकर-डीडवाना सड़क से सी.वी.रमण विद्यालय की ओर जाने वाले रास्ते में चलते हुये दांये साइड के मकानात शामिल करते हुए गणेशपुरा रोड़ तक वहाँ से उत्तर में चलते हुये दांयी साइड का एरिया शामिल करते हुए पावरहाउस उर्दू स्कूल तक एवं वहाँ से पश्चिम में चलते हुए दांयी साइड के मकानात शामिल करते हुये रास्ता क्रॉस कर इकरामुद्दीन बिसायती से दक्षिण में चलते हुए निजामुद्दीन तक वहाँ से पश्चिम में चलते हुए दांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुए ठेडियों की ओर जाने वाले रास्ते तक वहाँ से रास्ता क्रॉस कर मदीना मस्जिद से पश्चिम कि ओर जाने वाले |

| | |
|---|--|
| | <p>रास्ते में दायी और के मकानों को शामिल करते हुए बिड़ आबादी एरिया को शामिल करते हुए नगरपालिका सीमा तक वहाँ से उत्तर में चलते हुए नगरपालिका की सीमा के सहारे-सहारे कब्रिस्तान को शामिल करते हुए सीकर-डीडवाना रोड़ पर स्थित भंवरलाल पुत्र श्री धन्नाराम जाट तक एवं वहाँ से वापस कस्बे की ओर चलते हुये दांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुए सी.वी.रमण स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते तक का एरिया वार्ड संख्या 02 होगा।</p> |
| 3 | <p>सुनारी जाव की बस्ती में स्थित जमील बिसायती के मकान से / को शामिल करते हुये पूर्व की ओर चलते हुये बांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुये मुनान बिसायती तक ओर वहाँ से उत्तर की ओर चलते हुये बांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुये बीड़ की ओर जाने वाले रास्ते तक वहाँ से पश्चिम साइड में चलते हुये मोहनलाल ढाका,इस्ताक बिसायती,हाजी बसीरुद्दीन से महीनुदीन तक वहाँ से पश्चिम में जाने वाली गली में चलते हुये बांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुये ठेड़ियों की ओर जाने वाले रास्ते पर दक्षिण में चलते हुये बांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुये कन्हैया लाल ढाका के जाव की बस्ती को शामिल करते हुये जमील बिसायती के मकान तक का एरिया वार्ड संख्या 03 होगा।</p> |
| 4 | <p>मालपानियों के बाग में स्थित घीसालाल सुनार से / को शामिल करते हुए मोहन सुनार,लालचन्द्र पंसारी राधाकिषन मालचन्द्रका के मकान तक वहाँ से छोटी लोसल जाने वाले रास्ते के दांयी ओर के समस्त मकानात भंवर खां कायमखानी,नारायण बलाई विद्यालय नम्बर 02 तक एवं वहाँ से गणेषपुरा की ओर जाने वाले रास्ते पर उत्तर में चलते हुए दांयी ओर के मकानों को शामिल करते हुए जोषियों के जाव की बस्ती एवं मदीना मस्जिद के पास की गली से दक्षिण की ओर की बस्ती को शामिल करते हुए ठेड़ियों की ओर जाने वाले रास्ते के दांयी ओर के मकानात शामिल करते हुए कन्हैया लाल ढाका का जाव इस्लामीया मदरसा जाव छोड़ते हुए शीतला माता का मंदिर मालपानियों का बाग की आबादी बस्ती को शामिल कर घीसालाल सुनार के मकान तक का क्षेत्र वार्ड नम्बर 04 होगा।</p> |
| 5 | <p>राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर 02 के सामने स्थित लालू बालई के मकान से दक्षिण में चलते हुये दांयी ओर के मकानात शामिल करते हुए डूंगा माली की ढाणी की ओर जाने वाली सड़क पर पश्चिम में चलते हुए अमरचन्द्र के मकान तक वहाँ से उत्तर में चलते हुये दांयी साइड के मकान शामिल करते हुए संजय,बनवारी कुमावत तक वहाँ से छोटी लोसल की ओर जाने वाली सड़क को क्रॉस करते हुये पश्चिम में चलते हुये गुलाब चेजारा के मकान तक वहाँ से उत्तर में नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए गणेषपुरा का रास्ता होते हुये जोषियों के जाव की बस्ती को छोड़ते हुये लालू बलाई के मकान तक का एरिया वार्ड नम्बर 05 होगा।</p> |

| | |
|---|--|
| 6 | नारायण बलाई के मकान से/को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर चलते हुये दांयी ओर के मकानों को शामिल करते हुये भोमियांजी का रास्ता के दांयी ओर के मकानों को शामिल करते हुये नगरपालिका सीमा तक एवं वापस मुड़कर नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलते हुये छोटी लोसल जाने वाली सड़क तक एवं वहाँ से वापस लोसल आने वाली सड़क पर पूर्व में चलते हुये दांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुये गुदड़ कुमावत तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये डुंगा माली की ढाणी की ओर जाने वाली सड़क पर पूर्व में चलते हुये दांयी ओर के मकानों को शामिल करते हुये नारायण बलाई के मकान तक का एरिया वार्ड संख्या 06 होगा। |
| 7 | प्रेमपुरा स्कूल से बावरियों की ढाणी की ओर भीमा सीमा तक जाने वाली सड़क पर चलते हुये दांयी ओर की ढाणी रामकुमार एवं आगे की ढाणियों शामिल करते हुये भीमा सीमा तक वहां से पश्चिम में नगरपालिका के सीमा के सहारे-सहारे चलते हुये कुचामन सड़क तक सड़क क्रॉस करते हुये भोमियांजी तलाई की ओर जाने वाले रास्ते की ढाणियों को शामिल करते हुये हरिजन,सांसी बस्ती को छोड़ते हुये वापस कुचामन की ओर जाने वाली सड़क को क्रॉस करते हुये रामकुमार तक का एरिया वार्ड संख्या 07 होगा। |
| 8 | सोढ़ाणी अस्पताल से/को शामिल करते हुये हरिजन बस्ती की ओर चलते हुये बिहारी मास्टर की चक्की,पाबूजी महाराज का थान,सरकारी जलदाय विभाग (निसियां व धुणीदास को छोड़ते हुये) एवं आगे हरिजन मौहल्ला एवं सांसी मौहल्ला शामिल करते हुये उत्तर में चलते हुये दांयी ओर के मकानात शामिल करते हुये वापस पुराना पटवारघर की ओर चलते हुये दांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुये पुराना पटवारघर तक एवं वहां से उत्तर की ओर चलते हुये शांति सुनार तक एवं वहां से पूर्व की ओर चलते हुये दांयी साइड के मकानों को शामिल करते हुये सोढ़ाणी अस्पताल तक का एरिया वार्ड नम्बर 08 होगा। |
| 9 | कमरुतेली की दुकान से /को शामिल करते हुये छोटी लोसल के रास्ते चलते हुये बांयी ओर के समस्त मकानात शामिल करते हुये गन्नी तेली का मकान,भीलवाड़ियों का मकान व उसकी साइड में चलते हुये विद्यालय नम्बर 02 के सामने के रास्ते में भोलू बलाई के मकान तक एवं वहाँ से आगे दक्षिण की ओर चलते हुये बांयी ओर के मकानात शामिल करते हुये छिता कुम्हार के मकान से पूर्व की ओर मूड़कर चलते हुये बांयी ओर के मकानों को शामिल करते हुये पुराना पटवारघर को छोड़ते हुये भोलाराम की कोढ़ी के मकानों को शामिल करते हुये श्री निवास प्रधान के मकान तक एवं वहां से गली में पूर्व की ओर चलते हुये बांयी साइड के मकान शामिल करते हुये लक्ष्मण पटवारी तक एवं वहां से कमरुतेली की दुकान तक का एरिया वार्ड नम्बर 09 होगा। |

| | |
|----|--|
| 10 | हरगोविन्द खेतान के नोहरे से बाजार की ओर चलते हुये दांयी ओर के मकानात को शामिल करते हुये शेषभगवान के मंदिर एवं पब्लिक मेडिकल स्टोर,मदनलाल टाटनवाला की दुकान से जुगल दर्जी तक वहां से उत्तर की तरफ मुड़ते हुये दांयी तरफ के मकान शामिल करते हुये एस.बी.आई. बैंक की गली में चलते हुये बंध्या कुआं तक वहां से रैगरों के मौहल्ले में जाने वाले रास्ते में दांयी तरफ के मकान शामिल करते हुये रैगर मौहल्ले में स्थित चौराह से उत्तर में चलते हुये दांयी तरफ के मकान भैरू,जैसा का मकान शामिल करते हुये एवं उसी साईड में आगे चलते हुये छीगना रैगर वहां से गली में उत्तर की तरफ चलते हुये भंवरा रैगर,गणेश रैगर के मकान शामिल करते हुये शारदाज्ञान पीठ विद्यालय एवं खेतानों का इन्डा की आबादी को शामिल करते हुये हरगोविन्द खेतान के नोहरे तक का एरिया वार्ड नम्बर 10होगा। |
| 11 | मैन रोड़ पर स्थित अकबर हूसैन व्यापारी के मकान से/को शामिल करते हुये बाजार की ओर चलते हुये दांयी ओर के मकानात मस्जिद बिसायतियान से एस.बी.आई. बैंक की गली में पश्चिम की ओर चलते हुये दांयी ओर के मकान शामिल करते हुये वापस उत्तर में चलते हुये मुस्ताक बिसायति,गोपाल चेजारा तक वहां से मदरसा इसलामिया जाव शामिल करते हुये शीतला का जाव छोड़ते हुये मदरसा शामिल करते हुये नुरद्दीन का मकान वहां से नानू बिसायति,सदीक बिसायति तक वहां से वापसी में पूर्व कि ओर चलते हुये दांयी साईड के मकान शामिल करते हुये अकबर हूसैन व्यापारी के मकान तक का एरिया वार्ड संख्या 11 होगा। |
| 12 | पावर हाउस की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित इमामुद्दीन व्यापारी से/को शामिल करते हुये पश्चिम में चलते हुये युसुफ पिनारा तक वहां से दक्षिण में चलते हुये बांये साईड के मकानों को शामिल करते हुये गनी शेख तक वहां से बहलीमों की गली में पूर्व की ओर चलते हुये बांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये सलामु व्यापारी एवं वहां से मैन बाजार रोड़ पर स्थित अकबर हूसैन व्यापारी तक का एरिया वार्ड संख्या 12 होगा। |
| 13 | बस स्टैण्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित परमेश्वर गौड़ के मकान से / को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर चलते हुये बांयी हाथ के समस्त मकान शामिल कर मांगू कारीगर,मुस्ताक नाई नजीर व्यापारी तक वहां से दक्षिण में चलते हुये अब्दुला व्यापारी तक वहां से पुर्व में चलते हुये बांयी साईड के मकानात शामिल करते हुये बकरा मण्डी तक बकरा मण्डी से रोड़ क्रॉस कर बड़ी मस्जिद की साईड चलते हुये हाजी सदीक व्यापारी की दुकान को शामिल करते हुये वहां से पुर्व में गली में मुड़कर उमैदखां की चक्की से बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर बनी दुकानों तक वहां से परमेश्वर गौड़ के मकान तक का एरिया वार्ड संख्या 13होगा। |
| 14 | शमसानों के रास्ते पर स्थित निवाज व्यापारी के मकान से / को शामिल करते हुये उत्तर की तरफ चलते हुये बायी साईड के मकान शामिल करते हुये सलीम धोबी तक |

| | |
|----|---|
| | एवं वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये रास्ते के बांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये शमसान भूमि की ओर जाने वाले रास्ते तक वहां से वापस दक्षिण में चलते हुये जमील की चक्की तक एवं वहां से मुड़कर पुर्व में चलते हुये बायी साईड के मकान बोदु व्यापारी इस्ताक बिसायती की साईड वाले मकान शामिल करते हुये निवाज व्यापारी के मकान तक का एरिया वार्ड नम्बर 14 होगा। |
| 15 | सीकर-डीडवाना रोड़ पर सी.वी.रमण स्कूल का रास्ता से पुर्व की ओर चलते हुये दांयी ओर के मकानात शामिल करते हुये शिव मंदिर के पास से व्यापारियों का मौहल्ला में जाने वाली सड़क पर दक्षिण में चलते हुये मालियों की ढाणी के मकानात शामिल करते हुये अनवर व्यापारी से सदीक काजी तक वहां से पश्चिम में चलते हुये सुरजा खटीक वहां से शमसान भूमि की ओर जाने वाले रास्ते तक वहां से उत्तर में चलते हुये विद्युत विभाग को छोड़ते हुये गणेशपुरा जाने वाली सड़क तक वहां से सी.वी.रमण स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते के दांये हाथ के मकानात शामिल करते हुये सीकर-डीडवान रोड़ तक का एरिया वार्ड संख्या 15 होगा। |
| 16 | मालियों की ढाणी की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित मजीद व्यापारी से/को शामिल करते हुये पूर्व की ओर चलते हुये बांयी साईड के मकानात शामिल करते हुये शबीर व्यापारी वाली साईड चलते हुये मकबूल खां तक एवं वहां से सीकर-डीडवाना रोड़ तक एवं वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये बांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये शिव मंदिर शामिल करते हुये वापस व्यापारियों का मौहल्ला की ओर जाने वाली सड़क पर दक्षिण में चलते हुये बांयी साईड के मकानात शामिल करते हुये अब्बूकर मस्जिद वहां से मजीद व्यापारी के मकान तक का एरिया वार्ड संख्या 16 होगा। |
| 17 | बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित तिरूपति मार्केट की दुकानों से / को शामिल करते हुये बीड़ की ओर जाने वाले रास्ते के दांयी तरफ के मकान शामिल करते हुये आमीन व्यापारी के मकान तक एवं वहां से शमसान भूमि की ओर के रास्ते चलते हुये दांयी तरफ के मकान शामिल करते हुये मुमताज काजी तक वहां से पूर्व की तरफ मुड़कर जाने वाली सड़क पर दांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये रूस्तम पुत्र श्री मो० बेहलिम ,मजीद खां को शामिल करते हुये मुस्ताक तेली की दुकान तक वहां से पूर्व में चलते हुये दाये साईड के मकान शामिल करते हुये सफी व्यापारी तक वहां से दक्षिण में चलते हुये दांयी हाथ के मकान शामिल करते हुये तिरूपति मार्केट की दुकानों तक का एरिया वार्ड संख्या 17 होगा। |
| 18 | बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित संस्कृत विद्यालय से / को शामिल कर दक्षिण में चलते हुये भगवती प्रसाद जोशी वहां से नाईयों की गली आमीन मणियार की दुकान से बाजार की ओर चलते हुये मोचियों के मकान शामिल करते हुये वापस व्यापारियों को मौहल्ला की ओर चलते हुये दांयी हाथ के मकान शामिल करते हुये ईब्राहीम लीलगर,हॉजी बसीर बिसायती तक एवं वहां से कायमखानियों की गली में चलते हुये दायी ओर के मकान शामिल करते हुये संस्कृत विद्यालय तक का एरिया |

| | |
|----|--|
| | वार्ड संख्या 18 होगा। |
| 19 | गंगा माता मंदिर से उत्तर में चलते हुये बाबा परमानन्द बगीची का नोहरा शामिल करते हुये वहां से पश्चिम में चलते हुये गली बिसायतियों एवं नारियों की गली जो बगीची की ओर जाती है के दोनो साईड के मकान शामिल करते हुये शेबदीखां का मकान इलाहीबक्स खां का मकान वाली साईड व रफिक बिसायती वाली साईड लेते हुये बाबा परमानन्द की बगीची शामिल करते हुये मणियारों के मकान तक फिर बाजार की ओर जाने वाले रास्ते में चेजारों की गली बद्दी जोशी,जोशियों का मौहल्ला,बिड़ला हवैली वाली साईड चलते हुये बायी ओर के मकान शामिल करते हुये शौकत कारीगर की दुकान तक एवं वहां से रैगरों के मौहल्ले में जाने वाले रास्ते के पश्चिम में चलते हुये बांयी साईड के मकान शामिल करते हुये रैगरों के मौहल्ले में चौराहे से उत्तर की ओर चलते हुये बायी साईड के मकान लेते हुये मोहन रैगर का मकान होते हुये गुमाना रैगर के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये बायी साईड के मकान शामिल करते हुये प्रतूराम रैगर वहां से गंगा माता का मंदिर तक का एरिया वार्ड संख्या 19 होगा। |
| 20 | बाबा परमानन्द की बगीची के पास स्थित गंगा माता मन्दिर से /को शामिल करते हुये उत्तर की तरफ बस स्टेण्ड चलते हुये दांयी तरफ के मकानात शामिल करते हुये वेधविश्वनाथ जोशी के मकान,एवं काबरी जाव बस्ती में बालाजी हॉस्पिटल की गली में घूमकर पूर्व की ओर चलते हुये दांयी साईड के मकान शामिल करते हुये बजरंग लाल कुमावत तक एवं वहां से नगरपालिका की ओर जाने वाले रास्ते पर दक्षिण की ओर चलते हुये दांये हाथ के मकानार्त शामिल करते हुये नगरपालिका भवन तक एवं नगरपालिका के सामने स्थित इकबाल नजीर लौहार के मकान वाली साईड के मकान शामिल करते हुये सलीम नाई,शौकत नाई वाली साईड चलते हुये गंगा माता मंदिर तक का एरिया वार्ड संख्या 20 होगा। |
| 21 | सीकर-डीडवाना रोड़ पर स्थित इन्तजामिया कमेठी की दुकानों से दक्षिण में चलते हुये बांयी ओर के मकानात शामिल करते हुये मनसुख चेजारा वहां से बालाजी हॉस्पिटल की गली में पूर्व की ओर चलते हुये बायी साईड के मकानों को शामिल करते हुये नगरपालिका से बस स्टेण्ड की ओर जाने वाले रास्ते को क्रॉस कर बांयी हाथ के मकानात राधाकिशन कुमावत,गीरधारीलाल कुमावत को शामिल करते हुये सुभाष शर्मा वहां से उत्तर में चलते हुये बांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये सीकर-डीडवाना रोड़ ट्यूबेल की ओर जाने वाले रास्ते के बांयी ओर के मकानों को शामिल करते हुये फिर वापस सीकर डीडवाना रोड़ पर पश्चिम में चलते हुये इन्तजामीया कमेठी की दुकानों तक का एरिया वार्ड संख्या 21 होगा। |

| | |
|----|---|
| 22 | सीकर-डीडवाना रोड़ पर स्थित पुर्णमल कुमावत का जाव/मकान से पश्चिम की ओर चलते हुये दांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये घीसालाल रेगर के मकान तक वहां से उत्तर में चलते हुये दांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये छितर नाथू जागीड़ तक वहां से पूर्व में चलते हुये दांयी साईड के मकान शामिल करते हुये सदीक चौपदार तक एवं वहां से उत्तर में चलते हुये इन्द्रचन्द जांगिड़ वाली साईड के मकान शामिल करते हुये मकबूल खां तक वहां से पूर्व में चलते हुये डा. सुमेर सिंह से बुद्धाराम कुमावत को शामिल करते हुये दांयी साईड के मकान,दुकान शामिल करते हुये सीकर-डीडवाना रोड़ तक वहां से पुर्णमल कुमावत का जाव/मकान तक का एरिया वार्ड संख्या 22 होगा। |
| 23 | रामदेव साबू के कुएं से/को शामिल करते हुये उत्तर की ओर चलते हुये कन्हैया लाल चेजारा का बाड़ा एवं दांयी हाथ के समस्त मकानात को शामिल करते हुये प्रहलाद बलाई तक एवं वहीं से पूर्व में चलते हुये दांयी हाथ के समस्त मकानात होली पिपली का एरिया शामिल कर सीकर - डीडवाना रोड़ से बाजार की ओर जाने वाली बाई-पास रोड़ पर चलते हुये दाये हाथ के मकान शामिल करते हुये चुंकी देवी तक एवं वहां से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते के दांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये शिव वाला पंडित के मकान राजकीय आर्युवेद औषदालय एवं वहां से रामदयाल साबू के कुएं तक का एरिया वार्ड संख्या 23 होगा। |
| 24 | सीकर-डीडवाना रोड़ से हरिपुरा की ओर जाने वाली सड़क पर दक्षिण में चलते हुये श्रवण कुमार पुत्र श्री शिवभगवान शेषमा की ढाणी से कुचामण बाई-पास तक वहां से पश्चिम में चलते हुये गुजवां की ढाणी को शामिल करते हुये ग्रीन फिल्ड स्कूल तक एवं आगे ओकारमल जाट के पास बनी डब्लू बी.एम. सड़क पर चलते हुये दांयी साईड के मकान को शामिल करते हुये गुलाबचन्द खाती,गोरधन खेतान तक वहां से बंशीवाला महाविद्यालय जाने वाली सड़क पर पश्चिम में चलते हुये दांयी साईड के मकान शामिल करते हुये चौराहे पर लालचन्द मालचन्दका की दुकान वाली साईड चलते हुये कियालों के मकान शामिल करते हुये रामदेव मंदिर बाई-पास रोड़ पर पूर्व में चलते हुये दांयी साईड के मकान शामिल करते हुये रामदेवजी का मंदिर वाली साईड चलते हुये श्रवण कुमार शेषमा तक का एरिया वार्ड संख्या 24 होगा। |
| 25 | बाजार में स्थित अलाहरखा गुलजार मणियार की दुकान से/को शामिल करते हुये पूर्व में दायी हाथ के मकानात शामिल करते हुये रघुनाथ जी का मंदिर श्रीगोपाल साबू की दुकान काबरो की गली रहमान लीलगर की हवेली,डेड़राज खेतान की हवेली से जमनालाल काबरा की हवेली तक एवं वहां से सड़क-सड़क दक्षिण में चलते हुये दांयी ओर के समस्त मकानात सीताराम काकोट वाला का मकान शामिल कर गडू लाल |

| | |
|----|--|
| | <p>बियणी का नोहरा तक वहां से वापिस पश्चिम की ओर चलते हुये हनुमान माली के मकान वाली साईड शामिल करते हुये साबू वाटर बक्स तक वहां से मदनलाल टाटनवाला तक वहां से रोड क्रॉस कर आदू सिंह की दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुये दांयी साईड के मकानात शामिल करते हुये स्वामियों के मकान एवं वहां से भीमा जाने वाले रास्ते के दांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये कुचामन बाई-पास तक एवं कुचामन बाई-पास से वापस मुड़कर उत्तर की ओर चलते हुये दांयी साईड के मकान शामिल करते हुये सांसी बस्ती को छोड़ते हुये धुणीदास जी की बगीची को शामिल कर नसीया हनुमान धर्मशाला सिहोटियों की हवेली वहां से बोदू भाड़ासरियां के मकान को शामिल करते हुये अलारखां गुलजार मणियार की दुकान तक का एरिया वार्ड संख्या 25 होगा।</p> |
| 26 | <p>साबू कुएं के पास स्थित साबू के नोहरे से / को शामिल करते हुये पूर्व की ओर चलते हुये दांयी साईड के मकान शामिल करते हुये बालाजी का मंदिर अर्जुन सिंह तंवर तक एवं वहां से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते पर चलते हुये दांयी ओर के मकान शामिल करते हुये मुन्ना लाल जगदीश सबलानियां तक वहां से हरिपुरा जाने वाली रोड तक एवं वहां से दक्षिण में चलते हुये बावरियों की ढाणियों को शामिल करते हुये राजकीय बालिका विद्यालय तक एवं बालिका विद्यालय से उत्तर की ओर चलते हुये दांयी साईड के मकानात शामिल करते हुये गट्टु लाल बियानी के नोहरे बन्ने सिंह नरूका का मकान एवं दोमदर खेतान का मकान से आगे चलते हुये साबुओं के नोहरे तक का एरिया वार्ड संख्या 26 होगा।</p> |
| 27 | <p>हॉस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क से राजकीय बालिका विद्यालय की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित पूर्णमल पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी का मकान से आगे दक्षिण की ओर चलते हुये दांयी साईड के मकान शामिल करते हुये बालिका विद्यालय के सामने से पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते में चलते हुये उत्तर साईड के मकानात शामिल करते हुये एवं शहीद वाली सड़क चलते हुये मालीराम गौड़ के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण में चलते हुये खिवां माली का कुआं तक वहां से भीमा के रास्ते में कस्बे की ओर उत्तर में चलते हुये दांयी ओर के मकानात शामिल करते हुये सुरेश जांगिड़ शाला नम्बर 01कालिकों की हवेली तक वहां पूर्व में चलते हुये दांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये माणकचन्द गौड़ चिरंजीलाल साबू की हवेली से आगे पूर्णमल पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी का मकान तक का एरिया वार्ड संख्या 27 होगा।</p> |
| 28 | <p>हरिपुरा से आंकाकी तलाई की ओर जाने वाले रास्ते के दक्षिण की ओर चलते हुये दांयी ओर के मकान/ढाणियां, मोती बलाई के मकान को शामिल करते हुये नगरपालिका सीमा के पास स्थित टोड़ाराम, रामूराम बिजारणियां की ढाणी को शामिल करते हुये</p> |

| | |
|----|--|
| | पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलते हुये भीमा रोड़ एवं इसके आगे मूलचन्द बावरी तक वहां से उत्तर में प्रेमपुरा स्कूल की ओर चलते हुये दांये साईड की ढाणियों की शामिल करते हुये प्रेमपुरा स्कूल तक वहां से कुचामन बाई-पास,भीमा का रास्ता से पश्चिम में चलते हुये शहीद श्योदानाराम सड़क से रामदेवजी का मंदिर का रास्ता की ओर चलते हुये सुखाराम बाजिया ,आसू नाई को शामिल करते हुये आंकाकी तलाई का रास्ता पर स्थित मोती बलाई तक का एरिया वार्ड संख्या 28 होगा। |
| 29 | हरिपुरा रोड़ से आंकाकी तलाई की ओर जाने वाले रास्ते में दक्षिण की ओर चलते हुये बांयी साईड में मोहन बलाई के मकान को शामिल कर व ढाणियों को शामिल करते हुये गुमाना कोक तक भीमा गांव की सीमा तक एवं वहां से पूर्व की ओर नगरपालिका सीमा के सहारे -सहारे चलते हुये शेषमा की ढाणी का रास्ता के दोनो ओर की ढाणियां,बिजारणियां की ढाणी का रास्ता के दोनो ओर की ढाणियां सांगलियां का रास्ता के दोनो ओर की ढाणियां को शामिल करते हुये बजरंग लाल,चौखा राम से हरिपुरा की ओर चलते हुये बायी साईड की ढाणियां को शामिल करते हुये स्कूल तक (इसमें स्कूल से हीरालाल,चतराराम गोरूराम तक की ढाणियां छोड़ते हुये) आगे चलते हुये हरिपुरा से आंकाकी तलाई का रास्ता पर स्थित मोहन बलाई तक का एरिया वार्ड संख्या 29 होगा। |
| 30 | लोसल से हरिपुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रामू बाजियां से उत्तर की ओर चलते हुये कुशला बलाई तक एवं वहां से नानुराम शेषमा बालाजी की ढाणी हरिपुरा गांव को शामिल करते हुये पन्नाराम शेषमा से मुन्नाराम बाजिया,हरदेवाराम बाजिया से पुसाराम बाजिया तक एवं वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये हरिपुरा सड़क पर चलते हुये दांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये रामू बाजिया तक का एरिया एवं हरिपुरा स्कूल को शामिल कर हीरालाल चतरा राम,गोरू राम बिजारणियां तक का एरिया वार्ड संख्या 30 होगा। |
| 31 | सीकर-डीड़वाना रोड़ पर स्थित हरिपुरा स्टैण्ड से उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते में चलते हुये मंगला फोजी मंगजेराम पुत्र श्री सेवाराम शेषमा को शामिल करते हुये आगे सड़क क्रॉस कर दांयी साईड की ढाणियां शामिल करते हुये शिवली तलाई तक वहां से पूर्व में नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलते हुये बलवंतपुरा,चारणवास,भानीपुरा गांव व उनकी ढाणियां शामिल करते हुये सीकर-डीड़वाना सड़क तक सड़क क्रॉस कर हीराराम पुत्र श्री पदमाराम की ढाणी से दक्षिण की ओर चलते हुये गोरूराम शेषमा तक वहां से पूर्व में चलते हुये बांयी साईड की ढाणियों को शामिल करते हुये नगरपालिका की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुये वापस बलवन्तपुरा स्टैण्ड तक वहां से सीकर-डीड़वाना रोड़ पर कस्बे की ओर चलते हुये दांये साईड की ढाणियां शामिल करते हुये मंगला फोजी तक का एरिया वार्ड संख्या 31 होगा। |
| 32 | भीराणा रोड़ से रामपुरा की ओर जाने वाले रास्ते में भवरलाल रणवां से आगे उत्तर |

| | |
|----|--|
| | <p>में चलते हुये दांयी ओर की ढाणीयां शामिल करते हुये पुनियों की ढाणी,शमसान भूमि एवं रामपुरा से घासीरामजी की ओर जाने वाली सड़क पर पूर्व में चलते हुये दांयी हाथ की ढाणियों को शामिल करते हुये पेमाराम,तेजाराम,बजरंगलाल तक वहां से दक्षिण में घुमते हुये नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलते हुये गणेशराम तक एवं वहां से भीराणा रोड़ क्रॉस कर भगवाना राम वाली साईड की ढाणियां शामिल करते हुये हरिपुरा स्टेण्ड सीकर-डीडवाना रोड़ तक एवं वहां बस स्टेण्ड की ओर चलते हुये दाई साईड की ढाणियां/मकानात शामिल करते हुये कन्हैयालाल चेजारा की दुकान तक एवं वहां से वापस भीराणा सड़क पर चलते हुये दाये साईड के मकानात शामिल करते हुये रामेश्वर सैनी तक एवं वहां से भंवरलाल तक का एरिया वार्ड नम्बर 32 होगा।</p> |
| 33 | <p>सीकर-डीडवाना रोड़ पर स्थित रेवाड़ सदन से / को शामिल करते हुये पूर्व की ओर सड़क-सड़क चलते हुये बांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये पुलिस थाना तक वहां से भीराणा जाने वाली रोड़ पर पूर्व की ओर चलते हुये बांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये भीराणा रोड़ पर स्थित मालीयों के जाव के सामने से उत्तर की ओर रामपुरा जाने वाले रास्ते में चलते हुये बांयी साईड की ढाणियां गंगा सिंह की ढाणी नाईयों की ढाणियां व जीवन राम की ढाणी को शामिल करते हुये रामपुरा सड़क पर पश्चिम की ओर चलते हुये हरीराम बिजारणियां को शामिल करते हुये दक्षिण में चलते हुये विज्ञान छात्रावास को शामिल करते हुये भार्गव कॉलोनी को लेते हुये पश्चिम में चलते हुये बांयी साईड के मकानों को शामिल करते हुये सीकर-डीडवाना रोड़ पर स्थित रेवाड़ सदन तक का एरिया वार्ड संख्या 33 होगा।</p> |
| 34 | <p>बस स्टेण्ड पर स्थित ईन्तजामिया कमेठी से / को शामिल करते हुये धोद जाने वाली रोड़ के उत्तर की ओर चलते हुये दांयी साईड के मकानात को शामिल करते हुये अबकर हुसैन व्यापारी को शामिल करते हुये यासिन साई को छोड़ते हुये वहां से पूर्व की ओर चलते हुये रामपुरा जाने वाली सड़क पर स्थित नेमीचन्द जाट के मकान को शामिल करते हुये वहां से दक्षिण में चलते हुये दांयी साईड के मकानात को शामिल करते हुये वहां से पश्चिम में चलते हुये दांयी साईड के मकानों को लेते हुये पुराना शराब का गोदाम शामिल करते हुये सीकर-डीडवाना रोड़ तक वहां से रोड़ क्रॉस कर गैस ऐजेन्सी के पास से डन्डा की ओर जाने वाले रास्ते में बनवारी शर्मा को शामिल करते हुये प्रिंस स्कूल का रास्ता में कुमावत समाज की ओर चलते हुये दांयी ओर के मकान शामिल करते हुये रोड़ पर स्थित ट्यूबेल का रास्ता में मूड़कर उत्तर की ओर चलते हुये दांयी हाथ के मकानात शामिल करते हुये सीकर-डीडवाना रोड़ तक वहां से रोड़ क्रॉस कर ईन्तजामिया कमेठी की दुकानों तक का एरिया वार्ड संख्या 34 होगा।</p> |
| 35 | <p>राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा से/को शामिल करते हुये घासीराम जी की ढाणी की ओर जाने वाली सड़क पर पूर्व में चलते हुये बांयी साईड के मकान/ढाणियों को शामिल करते हुये घासीरामजी तक एवं वहां से उत्तर की ओर नगरपालिका की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुये रामपुरा की ढाणियों,ढमकाला की ढाणियां शामिल करते हुये धोद रोड़ तक एवं रोड़ क्रॉस कर रामनिवास भामू की ढाणी को शामिल करते हुये भागीरथ नेतड़,मदन पुत्र श्री मेघा सोहन,मोहन व जीवण हवलदार को शामिल करते</p> |

| | |
|--|---|
| | हुये व धोद जाने वाली रोड क्रॉस कर बस स्टेण्ड की ओर चलते हुये बायी ओर के मकानात/ ढाणियां शामिल करते हुये यासिन साई तक एवं वहां से पुर्व में चलते हुये बाये साईड के मकानात शामिल करते हुये रामपुरा सड़क तक एवं वहां से रामपुरा सड़क चलते हुये बांयी साईड के मकान शामिल करते हुये राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा तक का एरिया वार्ड संख्या 35 होगा। |
|--|---|

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका लोसल

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।